



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01082023-247746
CG-DL-W-01082023-247746

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 23—जुलाई 29, 2023, शनिवार/श्रावण 1—श्रावण 7, 1945
No. 28] NEW DELHI, JULY 23—JULY 29, 2023, SATURDAY/SHARAVNA 1—SHARAVNA 7, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 85.—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 33 दिनांक 27.03.2023 में, निम्नलिखित पृष्ठों को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

पृष्ठ संख्या 191: अनुसूची के कॉलम 11 में उल्लिखित पहली पंक्ति “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)” को इस प्रकार पढ़ा जाए “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति”

पृष्ठ संख्या 191: “(v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900-142400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की है ; या” अनुसूची के कॉलम 11 में उल्लिखित (ए) के तहत उप पैरा (v) में उल्लिखित को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900-142400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की है ; और”

[फा. सं. 2/2/2016-ई-II-पार्ट(1)]

विनोद कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th July, 2023

G.S.R. 85.—In the notification G.S.R No. 33 dated 27.03.2023 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, the following pages shall be modified as under:

Page No. 194: First line mentioned in Column 11 of schedule “Deputation (including short term contract)” may be read as “Deputation (including short term contract)/ promotion.”

Page No. 194: “(v) with nine years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or” mentioned in the sub para (v) under (a) mentioned in the Column 11 of schedule may be read as “(v) with nine years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and”

[F. No. 2/2/2016-E-II-Part(1)]

VINOD KUMAR GUPTA, Under Secy.

सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहकारिता मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता- वह व्यक्ति-**
क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	7 (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटर कार चलाने के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स को धारण करता हो ; (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य

<p>वाहनयान में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आनी चाहिए);</p> <p>(iii) मोटरयान चलाने का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए; और</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण</p> <p>वांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा।</p> <p>टिप्पण 1: सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			<p>परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी:</p> <p>क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और</p> <p>ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।</p>
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) निदेशक/उपसचिव(स्थापन) – अध्यक्ष;</p> <p>(ii) अवर सचिव (स्थापन) – सदस्य;</p> <p>(iii) अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) – सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-49012/31/2023-स्था. (सहकारिता)]

आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

New Delhi, the 26th July, 2023

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (ordinary grade) in the Ministry of Cooperation, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Cooperation, Staff Car Driver (ordinary grade) Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, level in the pay matrix.**— The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**- No person, -
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (ordinary grade).	7 (2023) subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 2 (Rs.19900-Rs.63200).	Not Applicable.	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove	Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year

minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10 th standard. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of the selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. a. Holding analogous posts on regular basis; and b. Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column number (7)
--	--	--	--

In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director/Deputy Secretary (Establishment) – Chairman; (ii) Under Secretary (Establishment) – Member; (iii) Under Secretary (General Admn.) – Member.	Not applicable.

[F. No. A-49012/31/2023-Estt.(Coop.)]

ALOK AGARWAL, Jt. Secy.